



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, फरवरी 5—फरवरी 11, 2006, शनिवार/माघ 16—माघ 22, 1927
No. 6] NEW DELHI, FEBRUARY 5—FEBRUARY 11, 2006, SATURDAY/MAGHA 16—MAGHA 22, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2006

सा.का.नि. 30.—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 293, तारीख 3 सितंबर, 2005 के अधीन जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, अनुसूची के पृष्ठ 1129-31 पर, स्तंभ 13 की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित पढ़ा जाए :—

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)

1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग
2. सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग
3. अपर/संयुक्त सचिव, प्रशासन का भारसाधक

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

- | | |
|---|---------|
| 1. सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग | अध्यक्ष |
| 2. अपर/संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग | सदस्य |
| 3. निदेशक/उपसचिव (स्थापन) या समतुल्य पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी | सदस्य |

[फा. सं. ए-12011/17/99-स्थापन]

एस. के. नायक, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st February, 2006

G.S.R. 30.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. Number 293, dated the 3rd September, 2005 at pages 1129—31 in the Schedule for the entry in column 13 may read as under :—

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion)

- | | |
|---|-----------|
| 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission | —Chairman |
| 2. Secretary, Department of Consumer Affairs | —Member |
| 3. Additional/Joint Secretary, Incharge of Administration | —Member |

Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation)

- | | |
|--|-----------|
| 1. Secretary, Department of Consumer Affairs | —Chairman |
| 2. Additional/Joint Secretary, Department of Consumer Affairs | —Member |
| 3. Director/Deputy Secretary (Estt.) or any other officer of equivalent rank | —Member |

[F. No. A-12011/17/99-Estt.]

S. K. NAYAK, Under Secy.

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2006

सा. का. नि. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बंजर भूमि विकास विभाग, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, डिस्पेच राइडर भर्ती नियम, 1995 को, जहां तक उनका संबंध स्टाफ कार ड्राइवर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) में स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भूमि संसाधन विभाग (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 2005 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस-नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रिणायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य श्रेणी)	1*(2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिबीय)	रु० 3050-75-3950-80-4590	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा			
11	12				
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में नियमित आधार पर नियुक्त ऐसे डिस्पेच राइडर और समूह 'घ' कर्मचारियों से जिनके पास मोटरकार चलाने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए संचालित ड्राइविंग परीक्षा के आधार पर मोटरकार चलाने का विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।				

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. निदेशक/उप सचिव, प्रशासन का भारसाधक —अध्यक्ष
2. अवर सचिव या संबंधित विभाग का समतुल्य अधिकारी —सदस्य
3. ग्रामीण विकास विभाग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक अवर सचिव —सदस्य
4. अवर सचिव, प्रशासन का भारसाधक —सदस्य

1	2	3	4	5	6
2. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	1*(2005) *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अनुसूचिवीय)	रु० 4000-100-6000	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा	ऐसा व्यक्ति, जिसने स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) के पद पर नौ वर्ष नियमित सेवा की हो और यह विद्युत और यांत्रिक कार्यशाला, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा संचालित व्यवसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्वधीन होगा :
	(1) जो अंग्रेजी के शब्द और अंक पढ़ने की योग्यता रखता हो
	(2) जिसे यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान हो
	(3) जिसके पास छोटी त्रुटियों को ढूंढने और उन्हें सुधारने की योग्यता हो
	(4) जिसके पास पहिये बदलने और टायरों में सही हवा भरने की योग्यता हो।

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. निदेशक/उप सचिव, प्रशासन का भारसाधक —अध्यक्ष
2. अवर सचिव या संबंधित विभाग का समतुल्य अधिकारी —सदस्य
3. ग्रामीण विकास विभाग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक अवर सचिव —सदस्य
4. अवर सचिव, प्रशासन का भारसाधक —सदस्य

1	2	3	4	5	6
3. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I)	2*(2005)*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	रु० 4500-125-7000	अचयन	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
11	12				
प्रोन्नति द्वारा	<p>ऐसा व्यक्ति, जिसने स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) के पद पर छह वर्ष नियमित सेवा की हो या जिसने स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) के पद पर सम्मिलित रूप से 15 वर्ष सेवा की हो और यह विद्युत और यांत्रिक कार्यशाला, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन होगा :</p> <p>(1) जो अंग्रेजी के शब्द और अंक पढ़ने की योग्यता रखता हो</p> <p>(2) जिसे यातायात विनियमों का पूरा ज्ञान हो</p> <p>(3) जिसे पेट्रोल और डीजल इंजन कार्यकरण का अच्छा ज्ञान हो और छोटी त्रुटियों को ढूँढने और उन्हें सुधारने की योग्यता हो</p> <p>(4) जो कार्बोरेटर और प्लग आदि को साफ करने के योग्य हो।</p>				
13	14				
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है			
1. निदेशक/उप सचिव, प्रशासन का भारसाधक	—अध्यक्ष				
2. अवर सचिव या संबंधित विभाग का कोई समतुल्य अधिकारी	—सदस्य				
3. ग्रामीण विकास विभाग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक अवर सचिव	—सदस्य				
4. अवर सचिव, प्रशासन का भारसाधक	—सदस्य				

[सं. ए-12018/4/2005-प्रशासन]

एच. सी. एस. रावत, अवर सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Land Resources)

New Delhi, the 2nd February, 2006

G.S.R. 31.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Rural Areas and Employment, Department of Wastelands Development Despatch Rider Recruitment Rules, 1995, in so far as they relate to the posts of Staff Car Drivers, except as respects things done or omitted

25261/06-2

to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Drivers in the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources), namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Department of Land Resources (Staff Car Drivers) Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, its Classification and Scale of Pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached therein shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, Age Limit, Qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage, with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, Ex-servicemen and other categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	1*(2005) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3050-75 3950-80- 4590	Not applicable	Not applicable
Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made				
11	12				
By deputation/absorption	Deputation/Absorption : From amongst the Despatch Riders and Group 'D' employees appointed on regular basis in the Ministries/Departments of the Central Government who possess valid Driving licence for motor cars on the basis of driving test conducted to assess the competence to drive motor cars. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications)				
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment				
13	14				
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Director/Deputy Secretary in charge of Administration —Chairman 2. Under Secretary or equivalent officer of concerned Division —Member 3. An Under Secretary from the Department of Rural Development belonging to SC/ST community —Member 4. Under Secretary in charge of Administration —Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.				
1	2	3	4	5	6
2. Staff Car Driver (Grade II)	1*(2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000.	Non-selection	Not applicable
7	8		9		10
Not applicable	Not applicable		Not applicable		Not applicable
11	12				
By promotion	Nine years regular service in the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade) and subject to the passing the trade test as under to be conducted by Electrical and Mechanical Workshop of National Airports Authority, New Delhi or any other recognized institution : (1) Must be able to read English numerals and figures (2) Must have good knowledge of traffic regulations (3) Must be able to locate faults and carry out minor running defects (4) Must be able to change wheels and correctly inflate tyres.				

13

14

Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :

1. Director/Deputy Secretary in charge of Administration

—Chairman

2. Under Secretary or equivalent officer of concerned Division

—Member

3. An Under Secretary from the Department of Rural Development belonging to SC/ST community

—Member

4. Under Secretary in charge of Administration

—Member

Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

1

2

3

4

5

6

3. Staff Car Driver (Grade I)

2*(2005)
*Subject to variation dependent on workload.

General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial

Rs. 4500-125-7000

Non-selection

Not applicable

7

8

9

10

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

11

12

By promotion

Six years regular service in the post of Staff Car Driver (Grade II) or a combined service of 15 years in the post of Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Orindary Grade) put together and subject to the passing the trade test as under to be conducted by Electrical and Mechanical Workshop of National Airports Authority, New Delhi or any other recognized institution :

(1) Must be able to read English numerals and figures

(2) Must have thorough knowledge of traffic regulations

(3) Must have good knowledge of petrol and diesel engine working and able to locate faults and rectify minor running defects

(4) Must be able to clear carburattor and plugs, etc.

13

14

Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :

1. Director/Deputy Secretary in charge of Administration

—Chairman

2. Under Secretary or equivalent officer of concerned Division

—Member

3. An Under Secretary from the Department of Rural Development belonging to SC/ST community

—Member

4. Under Secretary in charge of Administration

—Member

Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[No. A-12018/4/2005-Admn.]

H. C. S. RAWAT, Under Secy.